



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1932 (श10)

(सं0 पटना 609) पटना, बृहस्पतिवार, 19 अगस्त 2010

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

17 अगस्त 2010

एस0 ओ0 177, दिनांक 19 अगस्त 2010—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पंथ से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार-राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-02 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1(अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी-2010	172	4.63x4.93	3926.06
फरवरी-2010	170	4.63x4.93	3880.41
मार्च-2010	170	4.63x4.93	3880.41
अप्रैल-2010	170	4.63x4.93	3880.41
मई-2010	172	4.63x4.93	3926.06
जून-2010	174	4.63x4.93	3971.71
योग:	—		23465.06
औसत:	23465.06 ÷ 6 =		3910.85

## अनुसूची-1(ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम:- (1) पापड़ उद्योग, (2.) नाविक के नियोजन, (3.) अगरबत्ती उद्योग, (4.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर)/ अधिसूचना संख्या- 4991 दिनांक 01 अक्टूबर 2008

## अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	मूल न्यूनतम मजदूरी +भी०डी०ए०- 01.10.09+01.04.2010 से (रुपये में)	भी०डी०ए० प्रभावी की तिथि -01.10.2010 से (रुपये में)	कुल मजदूरी (3+4) 01.10.2010 से
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	89.00+11.00+10.00 =110.00 प्रतिदिन	4.00	114.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	92.00+11.00+11.00 =114.00 प्रतिदिन	4.00	118.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	113.00+14.00+12.00 =139.00 प्रतिदिन	6.00	145.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	138.00+17.00+15.00 =170.00 प्रतिदिन	7.00	177.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय/ लिपकीय	2553.00+312.00+ 285.00=3150.00 प्रतिमाह	131.00	3281.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी -जून- 2010 के औसत के आधार पर अक्टूबर, 2010 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम०डब्लू०-402/08-श्र०सं०-3413)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गरीब साहु,  
सरकार के अपर सचिव।

17 अगस्त 2010

एस० ओ० 178, एस० ओ० 177 दिनांक 19 अगस्त 2010 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम०डब्लू०-402/08-श्र०सं०-3414)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गरीब साहु,  
सरकार के अपर सचिव।

*The 17th August 2010*

S.O. 177 dated the 19th August 2010—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act and also consulting the Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for variable dearness Allowance in the Minimum Rate of Wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the employment mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-2 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

**Schedule-1 (A)**

Month & Year	Index N0 Base Year ( 2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year ( 1960-100)
1.	2.	3.	4.
January-2010	172	4.63x4.93	3926.06
February-2010	170	4.63x4.93	3880.41
March-2010	170	4.63x4.93	3880.41
April-2010	170	4.63x4.93	3880.41
May-2010	172	4.63x4.93	3926.06
June-2010	174	4.63x4.93	3971.71
Total	—		23465.06
Average	23465.06 ÷ 6 =		3910.85

**SCHEDULE-I(B)**

Name of employment - (1.) Papad Industry (2.) Sailars employment (3.) Agarbati Industry (4.) Employment of Safaies Karamcharis (Exculding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993 )/ Notification No.- 4991, dated 1st October 2008

**SCHEDULE -II**

Sl. No.	Categories of Workers	Basic Minimum Wage+V.D.A.- 01.10.09+ 01.04.10 (In. Rs.)	V.D.A. Effective date 01-10-2010	Total wage (3+4) 01.10.2010
1	Unskilled	89.00 +11.00+10.00= 110.00 per day	4.00	114.00 per day
2	Semi skilled	92.00+11.00+11.00= 114.00 per day	4.00	118.00 per day
3	Skilled	113.00 +14.00+12.00= 139.00 per day	6.00	145.00 per day
4	Highly Skilled	138.00+ 17.00+15.00= 170.00 per day	7.00	177.00 per day
5	Supervisory/ Clerical	2553.00+312.00+ 285.00= 3150.00 Per month	131.00	3281.00 Per month

These rates of variable dearness Allowance will be based on the average of all India Consumer price index on which the variable Dearness Allowance has been fixed / revised in the above schedule employments. there will be increase or decrease in wage of rates shown in column 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employment and will be deemed as variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of January to June, 2010 payable at the aforesaid rates from October, 2010 and there after increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of all India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.-402 /08 L&R-3413 )

By order of the Governor of Bihar,

GARIB SAHU,

*Additional Secretary to Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 609-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>